



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18—अप्रैल 24, 2015 (चैत्र 28, 1937)
 No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18—APRIL 24, 2015 (CHAITRA 28, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	273	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	359	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	893	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 339
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 61
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 357
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	273	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	359	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	893	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	339
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	61
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	357
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2015

सं. 29—प्रेज/2015—राष्ट्रपति सहर्ष निर्देश देते हैं कि दिनांक 19 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या 41—प्रेज/75 के अंतर्गत 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र, भाग—I, खण्ड—I में प्रकाशित राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक और अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करने के संबंध के नियमों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक

वर्तमान नियम 5 के उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

‘इस वीरता पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ता, उनके रैंक का ध्यान रखे बिना एक समान दर पर नकद भत्ता पाने के हकदार होंगे। पदक और पदक के बार के लिए नकद भत्ते की दर 3000/— रु. (रुपये तीन हजार केवल) प्रतिमाह होगी।’

वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक

वर्तमान नियम 5 के उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

‘जब वीरता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा तो राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन पदक और पदक की बार के साथ पदक प्राप्तकर्ता के रैंक को ध्यान में रखे बिना 2000/— रु. (रुपये दो हजार केवल) प्रतिमाह की एक समान दर से मौद्रिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। उस पर आने वाला खर्च केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और उन संबद्ध संगठनों, जिनकी अग्नि शमन सेवा से कार्मिक संबंधित होते हैं, के राजस्व द्वारा वहन किया जाएगा।’

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 30—प्रेज/2015—भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—I में दिनांक 29 अगस्त, 1998 को प्रकाशित इस सचिवालय की सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से संबंधित दिनांक 15 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 91—प्रेज/1998 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

के स्थान पर :

श्री वी एस सांगवान
सहायक कमांडेंट
धमकुड (जम्मू एवं कश्मीर)
सीमा सुरक्षा बल

पढ़ा जाए :

श्री वी एन सांगवान
सहायक कमांडेंट
धमकुड (जम्मू एवं कश्मीर)
सीमा सुरक्षा बल

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 31-प्रेज/-2015-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री माखन बोरा

उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 02.09.2008 को गांव पश्चिम दिहिना और दखिन सिंगरा क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों की आवाजाही के बारे में श्री माखन बोरा द्वारा प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर, पुलिस और सेना के एक दल ने संयुक्त रूप से एक अभियदन शुरू किया। बच निकलने के मार्ग को बंद करने के लिए एक बाहरी घेराबंदी की गई। क्षेत्र की सामान्य तलाशी के दौरान उल्फा के दो संदिग्ध उग्रवादी पुलिस दल को देखकर एक खाली मकान में घुसे और सुरक्षा बल पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जो नहीं फटा। उप-निरीक्षक माखन बोरा ने कई बार तेज आवाज में उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तथापि, घर में शरण लिए हुए उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की। सुरक्षा कर्मियों ने भी अपने बचाव में गोलीबारी की और अपनी जानों को जोखिम में डालकर उग्रवादियों की ओर बढ़े जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से किसी उग्रवादी को कुछ चोटें आईं। दोपहर लगभग 02.30 बजे उप-निरीक्षक माखन बोरा अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए मेडिकल सहायता के लिए उसे बचाने हेतु अपनी जान को जोखिम में डालकर अकेले ही सशस्त्र हथियारबंद घायल उग्रवादी तक पहुंचे। उप-निरीक्षक माखन बोरा घायल उग्रवादी को निकालने में सफल रहे और उग्रवादी को हाजो सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले गए जहां उपस्थित डाक्टर ने उस मृत लाया गया घोषित कर दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा तलाशी ली गई और निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद हुए:-

1. चार्ज मैगजीन के साथ चीन में निर्मित 159213 नम्बर वाली एक पिस्तौल मैगजीन सं. एफ आर-पी 38, सी 2 के अंदर पाई गई चीन में निर्मित 9 एमएम की पिस्तौल मैगजीन लॉट के तीन जिंदा कारतूस
2. एक आस्ट्रियन ग्रेनेड (बिना फटा हुआ)
3. खाली खोखे-02
4. ग्रेनेड की एक सेफ्टी पिन
5. एक ग्रेनेड लीवर
6. ए.के. सीरीज के चार खाली खोखे

मारे गए उग्रवादी की पहचान गांव दखिन सिंगरा, पुलिस स्टेशन हाजो के दीपज्योति मालाकर उर्फ गजेन मालाकर पुत्र स्वर्गीय खगेन मालाकर के रूप में की गई जो अनेक विस्फोटों और जबरन धन वसूली के मामलों में शामिल था। वह नलबाडी के निवासी एसएस एस.एम विश्वजीत दत्ता उर्फ अरुण डेका, का घनिष्ठ सहयोगी भी था, जो इस समय 709 उल्फा बटालियन के अंतर्गत हाजो क्षेत्र का एरिया कमांडर है।

इस संबंध में आयुध अधिनियम की धारा 25(1) (क)/27, ई.एस. अधिनियम की धारा 4/5 और यू.ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित साथ पठित के साथ पठित आईपीसी की धारा 20(ख)/121/121(क)/122/384/307 के तहत मामला सं. 199/08 दर्ज किया गया था।

यह अभियान एक असुविधा क्षेत्र में चलाया गया था, जहां हमलावर प्रहार दल के कर्मियों से बेहतर स्थिति में थे। ऐसी कठिन स्थिति में तुरंत कार्रवाई और श्री माखन बोरा द्वारा दिखाए गए साहस का उचित परिणाम प्राप्त हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री माखन बोरा, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 02.09.2008 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th March 2015

No. 29-Pres/2015—The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Fire Service Medal and Fire Service Medal published in Part-I, Section-1 of the Gazette of India of 31st May, 1975 vide Notification No. 41-Pres/75 dated 19th May, 1975, with immediate effect:-

PRESIDENT'S FIRE SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY

For the existing sub-rule (a) of Rule (5), substitute the following:-

“All the recipients of this gallantry award shall be entitled to monetary allowance at uniform rates, irrespective of their ranks. The rate of monetary allowance for the Medal as also for the Bar to the Medal shall be Rs. 3000/- (Rs. three thousand only) per mensem”.

FIRE SERVICE MEDAL FOR GALLANTRY

For existing sub-rule (a) of Rule (5), substitute the following:—

“When awarded for gallantry, the Medal as also the Bar to the Medal shall, subject to the conditions set forth for the President's Fire Service Medal for Gallantry, carry monetary allowance at a uniform rate of Rs. 2000/- (Rs. two thousand only) per mensem irrespective of the rank of the recipient. The charges thereof shall be borne by the revenues of the Central Ministries/States/Union Territories, and by the respective organizations in respect of personnel belonging to their Fire Services”.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 30-Pres/2015—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 91-Pres/98, dated the 15th August, 1998 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on 29th August, 1998 relating to the award of Police Medal for Meritorious Service:-

For:-

SHRI V S SANGWAN
ASSISTANT COMMANDANT
DHAMKUND (J&K)
BORDER SECURITY FORCE

Read :-

SHRI V N SANGWAN
ASSISTANT COMMANDANT
DHAMKUND (J&K)
BORDER SECURITY FORCE

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 31-Pres/2015- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Makhan Borah
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 02.09.2008 based on specific information received by Shri Makhan Borah about movement of some ULFA extremists in the village Pachim Dihina and Dakhin Singra area, a team of Police and Army jointly launched an operation. One outer cordon was laid to block the escape route. During the routine search of the area, two suspected ULFA extremist, on seeing the Police party entered into an abandoned house and lobbed one hand grenade at the security force which did not explode. SI Makhan Borah repeatedly shouted at the extremists to surrender. However, the extremists who had taken shelter

in the house opened fire on the police party. Security personnel also opened fire in self – defence and taking risk of their lives advanced towards the extremist as a result of which the extremist, apparently received some injuries on his person. At about 02.30 PM, SI Makhan Borah displaying exemplary courage alone approached the armed injured extremist at the grave risk of his life to rescue him for medical need. SI Makhan Borah succeeded in rescuing the injured extremist and shifted the extremist to Hajo Public health centre for treatment where the extremist was declared brought dead by the attending doctor. Search was carried out by the security personnel and the following arms and ammunition were recovered.

1. One Chinese Pistol with the charge Magazine bearing No. 159213
2. Three live rounds of 9 mm of Chinese Pistol found inside the magazine lot No. R-P38,C2
3. One Austrain grenade (Unexploded)
4. Empty Case-2 Nos
5. One Safety pin of Grenade
6. One Grenade lever
7. Four empty case of AK-series.

The extremist neutralized was identified as Deepjyoti Malakar @ Gajen Malakar, s/o Lt. Khagen Malakar of village Dkhin Singhra, PS Hajo and was involved in number of explosion and extortion cases. He was also a close associate of SS S.M Biswajeet Dutta @ Arup Dekha, resident of Nalbari, who is presently holding the charge of area Commander of Hajo area under 709 Bn ULFA.

In this connection a case was registered at Hajo PS vide case NO. 199/08 U.S 20 (B)/121/121 (A)/122/384/307 IPC R/W Sec. 25 (1) (A) 27 Arms Act R/W sec. 4/5 of E.S Act and R/W Sec. 10/13 UA (P) Act.

The operation was conducted in an inhospitable terrain where the attackers had more advantages than the striking team personnel. The instant reaction in such a difficult situation and courage shown by Shri Makhan Borah has brought such deserved result.

In this encounter Makhan Borah, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/09/2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in